

## प्रेस नोट दिनांक-20.02.2023

(1). आज दिनांक 20.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(2). आज दिनांक-20.02.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक-20.02.2023 को श्रीमान अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री कुंवर बहादुर सिंह एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी राजापुर श्री प्रमोद कुमार झा की उपस्थिति में तहसील राजापुर सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये, भूमि विवाद से सम्बन्धित सन्दर्भों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार राजापुर श्री संजय अग्रहरि, नायब तहसीलदार श्री पुष्पेंद्र गुप्ता राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). आज दिनांक-20.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में ए0एस0 चेक टीम बांदा, डॉग स्क्वायड एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा फाल्गुन मास की सोमवती अमावस्या मेला में शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रामघाट में संदिग्ध वस्तुओं एवं संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(5). दिनांक 20.02.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। महोदया द्वारा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(6). आज दिनांक-20.02.2023 को श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला की अध्यक्षता में तहसील मानिकपुर सभागार में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये, भूमि विवाद से सम्बन्धित सन्दर्भों में पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराने हेतु निर्देश दिये गये। सम्पूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकासधिकारी चित्रकूट अमृतपाल कौर, उपजिलाधिकारी मानिकपुर श्री प्रमेश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री गुलाबचंद्र सोनकर, तहसीलदार मानिकपुर तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सुबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री इमरान खान तथा उनकी टीम द्वारा मु०सं० 204/2023 धारा 494,498ए, भादवि० व 3/4 द०प्र० अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त भोला यादव पुत्र स्व० रामा यादव निवासी मरका थाना मरका जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ०नि० श्री इमरान खान थाना भरतकूप
2. आरक्षी विजय बहादुर